Valiant Communications Limited

(An ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Certified Company) Regd. Office : 71/1, Shivaji Marg, New Delhi 110015, India

Corporate Identity No. : L74899 DL1993 PLC056652 | GSTIN : 07 AAACV4250G 1ZJ T : +91-11-2592 8415, 2592 8416, 2541 0053 | F : + 91-11-2543 4300, 4105 5604

E:admin@valiantcom.com | W:www.valiantcom.com



Date: September 06th 2022

BSE Limited,
Deputy General Manager
Corporate Relationship Department
Ist Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, please find enclosed herewith the copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 29th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, September 30, 2022 at 09:30 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means:

- Financial Express in English Language (National daily newspaper) on September 06th 2022
- Jansatta in Hindi Language (Daily newspaper of the State)- on September 06th 2022

This is for your information and records.

Sincerely,

For Valiant Communications Limited

Company Secretary d

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

BHARAT NIDHI LIMITED

CIN: U51396DL1942PLC000644 Regd Office: First Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Email ID: bharatnidhi1@gmail.com Phone No.: 011-43562982

NOTICE

Notice of 79th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Notice is hereby given that:

 The 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022 AT 12:30 P.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") to transact the business as stated in the Notice thereof, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 ("MCA Circulars"). The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of

The Register of Members and Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both

- In line with the MCA Circulars, the Notice calling the AGM and Annual Report 2021-22 has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The requirements of sending physical copy of AGM Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars.
- In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the details of the remote electronic voting (remote e-voting & e-voting during the AGM) are given hereunder.
- (a) The Business to be transacted at the AGM may be transacted by remote e-voting or e-voting facility at the AGM.
- (b) The remote e-voting shall commence from Saturday, September 24, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, September 26, 2022 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled thereafter.
- (c) The Cut-off date is September 20, 2022. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. (d) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the
- Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date are requested to send the written/email communication to the RTA at parveen@skylinerta.com by mentioning their Folio no./DP ID and client id to for obtaining support in this regard.
- e) The Members participating in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM
- (f) The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again through the evoting system during the AGM.
- (g) Mr. Mohit Bansal (M/s. Mohit Bansal & Associates), Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 46112, COP No. 16860), has been appointed as the Scrutinizer for the e-voting process.
- (h) The detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM and attending AGN through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.
- The Notice is also available on the RTA's Website www.skylinerta.com and on the

website of the CDSL www.evotingindia.com.

- (j) In case of any queries/ issues regarding e-voting, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi (1800 22 55 33), Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company's RTAat parveen@skylinerta.com. (k) Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of
- shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at the prescribed rates. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares held in demat mode) However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholder if the total dividend to be received during FY 2022-23 does not exceed

A resident individual shareholder with PAN who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at Company's RTA email at info@skylinerta.com and parveen@ skylinerta.com by September 20, 2022 (upto 5.00 p.m. IST). Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20% as per Section 206AA of the Income Tax Act, 1961.

Amita Gola Date: September 05, 2022 Company Secretary Place: New Delhi

For Bharat Nidhi Limited

QUANTUM BUILD-TECH LIMITED

CIN: L72200TG1998PLC030071 Regd. Office: : 8-1-405/A/66, Dream Valley, Near O.U. Colony, Shaikpet Hyderabad-500008, Telangana, India

Email: info@quantumbuild.com; Website: www.quantumbuild.com. Tel: 040-23568766, 23568990 NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Quantum Build-Tech Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio -Visual Means ("OAVM"), on 28th September, 2022 at 11:30 AM IST to transact the Ordinary & Special Business as detailed in the Notice dated 10th August, 2022, convening the said AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic and the restrictions thereon, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has, vide its circular dated 13.01.2021 read together with circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020, 05.05.2020 and 13.01.2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") allowed convening the AGM through Video Conferencing or Other Audio-Visual Means, without the physical presence of the Members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

Notice of AGM and Dispatch

In terms of the Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the aforesaid Notice and the Annual Report (including Financial Statements) for the Financial Year 2021-2022 have been sent through e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant(s) (DP)/ Registrar & Transfer Agent (RTA) / Company on 1st September, 2022. The Annual Report along with AGM Notice is available on the Company's website at www.quantumbuild.com and also on www.evotingindia.com, www.bseindia.com Members who have acquired shares in the Company after the said date, or who have not registered their e-mail address with the DP/RTA/Company can access the Annual Report on the above websites and send a request to your DP/RTA/Company for receipt of the same along with e-voting

Closure of Register of Members and Share Transfer Books NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the

Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Members and al other persons concerned are hereby requested to take note of the same and lodge the share transfer deed(s), if any, duly executed, with the Registrar & Transfer Agent (RTA) and also notify change in their address/bank account particulars, if any, to the RTA (in respect of shares held in physical form) or directly to their Depository Participant(s) (in respect of shares held in demat form) on or before 21st September, 2022 ("cut-off date"). All shareholders holding shares as on cut-off date shall be eligible to cast their vote and attend the AGM of the Company

Manner of Voting at the AGM (remote e-voting and e-voting at AGM)

NOTICE is further given that in compliance with Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility (remote e-voting and e-voting at the AGM) to all its Shareholders to enable them to cast their votes on all matters listed in the said Notice through electronic means.

CDSL to all its Members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Members will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM either remotely (during remote e-voting period) or during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the

The Company is pleased to provide E-voting facility (including "remote e-voting") of

Cut-Off Date for determining the Wednesday, 21st September, 2022 Members entitled to vote through e-voting Commencement of e-voting period Saturday, 24th September, 2022 (9:00 AM)

End of e-voting period Tuesday, 27th September 2022 (5:00 PM) The members who cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but will not be allowed to vote again at the AGM. The detailed instructions for casting the vote through e-voting is attached to the AGM Notice as well as available on the Company's website on www.quantumbuild.com and on websites at www.evotingindia.com and www.bseindia.com.

Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice convening the AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the LOGIN ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 or mail to investor.relations@vccipl.com. However, if such person is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing USER ID and password for casting vote. Any person who is not a shareholder as on

the cut-off date may consider this notice for informational purposes only.

Attendance to the AGM through VC/OAVM: Members are requested to note, that in view of the MCA Circulars, the Company is

pleased to provide attendance to the AGM through VC/OAVM facility. The Shareholders will be required to login on www.evotingindia.com using their e-voting User ID and password. The link to view and participate in the AGM proceedings will be available on www.evotingindia.com. The details for participation to the AGM registration as a Speaker and to ask questions on the agenda for the AGM are included in the Notes to the AGM Notice. The members are requested to refer the same in detail. Members who have not updated their e-mail addresses are requested to update the same with their DP by sending a written request by email to investor.relations@vccipl.com.

In case of any queries/grievances, connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The instructions for e-voting and participation in the AGM shall also form a part of the AGM Notice of the Company, which shall be available on the website of the Company CDSL and the Stock Exchange. This Advertisement is being published in compliance of the MCA Circulars and for the information of the members as is available on the Stock Exchanges website and the website of the Company.

We urge all members to update their information at the earliest to receive the AGM Notice, Annual Report and e-voting credentials (as applicable). By Order of the Board of Directors

For Quantum Build-Tech Limited **Guduru Satyanarayana** Managing Director- DIN: 02051710



(A Govt. of India Enterprise) 'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028 CIN:L13100TG1958GOI001674.

CONTRACTS DEPARTMENT Tender Enquiry No: HO(Contracts)/DNIM/PELLET/O&M/PP/148 Dated: 05.09.2022 NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids through GEM Portal from experienced domestic bidders for "Operation & Maintenance of Palletization Plant & MRSS for a period of 1 year at 1.2 MTPA Pellet Plant, Donimalai, Karnataka"

The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from 05-09-2022 to 26-09-2022 from following website links:

1.NMDC website http://www.nmdc.co.in 2.Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) https:// www.eprocure.gov.in/epublish/app and

3.GeM Portal-https://mkp.gem.gov.in/registration/signup#! seller and search the Bid Number : GEM/2022/B/2501509 dated 05-09-2022.

For further help refer to seller-registration-pre-requisites-v1.2 on GeM Portal The bidders are requested to submit their bids online through GeM Portal only. The details of submission of bid through online are given in NIT. The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website/CPP

Portal/GeM website for corrigendum, if any, at a future date. For further clarification, CGM (Contracts), NMDC Limited, Hyderabad can be contacted through Fax No. +91-040-23534746,

Chief General Manager (Contracts) डस्पाती इरादा हर एक काम देश के नाम

NATIONAL FITTINGS LIMITED CIN: L29199TZ1993PLC008034

Tel No.+91-040-23532800, email: contracts@nmdc.co.in

Read. Office: SF No.112, Madhapur Road, Kaniyur Village, Via Karumathampatti - 641 659, Coimbatore District. Ph.99432 93000 Email: nationalfittingsltd@gmail.com **NOTICE**

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules") the Company is mandated to transfer the dividend for the financial year 2014-15 which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred during the financial year 2022-2023 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on its website www.nationalfitting.com. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unclaimed dividend and shares liable to be transferred. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may be noted that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificates(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th October, 2022, the Company shall transfer the shares to IEPF Authority as per procedure

originals held by them, to convert into DEMAT form and transfer in favor of IEPF.

Please note that no claim shall be against the Company in respect of the unclaimed dividend imount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

For queries on the above matter, the Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agents at S.K.D.C Consultants Ltd., Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, Phone: +91 422 4958995 / 2539835-836 | Fax: +91 422 2539837. Email: info@skdc-consultants.com.

For National Fittings Limited

Place : Coimbatore Date: 03.09.2022

stipulated in the Rules.

S Aravinthan Company Secretary

Kotia Enterprises Limited 905, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

CIN: L74110DL1980PLC010678 Ph: 011 - 40045955 Website: www.kotiaenterprises.com, Email: compliance@kotiaenterprises.com

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022, at 11:00 A.M. at 905, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 to transact such Ordinary and Special business as set out in the Notice Electronic copy of Notice of 42nd AGM and instructions for remote e-voting, along with Attendance

Slip and Proxy Form and Annual Report 2021-22, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 05th As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management

and Administration) Rules 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM ("remote e-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules

as amended, are given here under: The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through

- Date and time of commencement of voting through electronic means: September 27, 2022, at
- Date and time of end of voting through electronic means: September 29, 2022, at 5:00 p.m.
- Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 29, 2022. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is
- September 23, 2022 Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to (RTA), e-mail: admin@skylinerta.com However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then
- you can use your existing User ID and password for casting your vote. The facility for voting through ballot paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners.
- maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e., on September 23, 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper The Notice of AGM is displayed on the Website of Company on www.kotiaenterprises.com. and
- also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com 1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of

www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from

September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM By Order of the Board

Neelam Rani Company Secretary

GOKUL REFOILS AND SOLVENT LIMITED Corporate Identification Number: L15142GJ1992PLC018745 Regd. Office: State Highway No. 41, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur-384151, Gujarat.

Ph.: 079-3501 5555, Email: abhinav.mathur@gokulgroup.com, Website: www.gokulgroup.com

NOTICE is hereby given that:

Date: 05.09.2022

Place : Ahmedabad

- The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Gokul Refoils and Solvent Limited will be held on Friday, the 30th September, 2022 at 11.00 A.M at Gokul Highway Food Mall, Gujarat State Highway 41, Near Sujanpur Patia, Siddhpur, Gujarat-384151 to transact the business as set out in the Notice convening AGM, a copy of which has been posted / emailed to the Members of the Company at their registered address / email address together with the Annual Report for the financial year 2021-22.
- 2. Members are hereby informed that the Notice of the 29th AGM, Annual Report and remote e-voting instructions are also available on company's website www.gokulgroup.com and also available on the website of CDSL, www.evotingindia.com
- 3. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulations 44 of the SEBI (LODR), 2015, the Company is pleased to provide the facility of casting votes using Electronic Voting System from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') provided by CDSL to its shareholders for transacting the business contained in the Notice.
- . The remote e-voting period commences on Monday, September 26, 2022 @ 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 29, 2022 @ 5.00 p.m. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. 5. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-
- voting as well as voting at the meeting. 6. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the

Notice of the AGM uploaded at our website www.gokulgroup.com and CDSL website

- www.evotingindia.com The members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting may vote at the Annual General Meeting through Ballot Paper for all business specified in the Notice dated September 01, 2022.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- 9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.
- 10. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual report to the members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.
- 11. The details of the AGM are available on the website of the Company at www.gokulgroup.com, CDSL at www.evotingindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

By order of Board of Directors For, Gokul Refoils and Solvent Limited Abhinav Mathur Company Secretary

K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

(SUGAR @ AND IND COR

AGM through Video Conferencing

e-Voting at the AGM

Registered Office: 'Ramakrishna Buildings'. No.239, Anna Salai, Chennai - 600006 CIN: L15421TN1995PLC033198 Tel: 044 - 28555171 - 176 | Fax: 044 - 28546617

e-mail: secretarial@kcpsugar.com | Website: www.kcpsugar.com NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of K.C.P.Sugar and Industries Corporation Limited ('Company') will be held on Wednesday, the 28th Day of September, 2022 (28/09/2022) at 10 AM through Video Conferencing to transact the businesses set forth in the

The 27th Annual Report of the Company containing Notice of AGM, Financial Statements, Reports of Auditors and Directors has been sent only by email to all those Shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company / RTA / Depository Participant, as the case may be, in terms of applicable notifications of MCA.

The Annual Report is also available in the Website of the Company at www.kcpsugar.com and Websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and Website of In accordance with the notifications of SEBI and MCA, Shareholders can join and participate in

the AGM only through Video Conferencing and can exercise their voting right only by e-Voting. Important Event Dates pertaining to the AGM of the Company are as follows: Cut-Off Date

(Members who are holding Shares (both 21/09/2022 physical and Demat) as on such date will be eligible to cast their vote and attend AGM and **Book Closure Dates** 22/09/2022 to 28/09/2022 (Closure of Share Transfer Books and Register (both days inclusive) of Members / Register of Beneficial Owners) Remote e-Voting commences on 25/09/2022 (from 9 AM) Remote e-Voting ends on 27/09/2022 (till 5 PM)

nstructions for e-Voting and attending the AGM through Video Conferencing are provided in detail in the Annual Report and are also available in the Website of the Company at www.kcpsugar.com Members may post their questions by email addressed to secretarial@kcpsugar.com not less than 2 days before the date of Annual General Meeting by providing relevant Membership details for the purpose of identification including Name, Folio Number / Client ID / DP ID and the same will be addressed by the Company in the Annual General Meeting, suitably.

28/09/2022 at 10 AM

28/09/2022 (commences after the conclusion

hour after the conclusion of AGM)

of AGM and will be open till the expiry of half an

// BY ORDER OF THE BOARD// For K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

Place: Chennai ARAVINDKUMAR.V Date: 06/09/2022 Company Secretary

VALIANT COMMUNICATIONS LTD. CIN: L74899DL1993PLC056652

Regd. Office: 71/1, Shivaji Marg, New Delhi-110015 **Phone:** +91-11-25928415, 25928416 Email: investors@valiantcom.com, Web: www.valiantcom.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 29" Annual General Meeting ('AGM') of the Member of Valiant Communications Limited ('Company') will be held on Friday, Sept. 30th 2022

at 09:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the meeting, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules and applicable Circular issued by statutory authorities. The Register of Members and the Share Transfer Book will remain closed from Saturday, Sept. 24th 2022 to Friday, Sept. 30th 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In compliance with applicable Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report has been sent by email to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The emailing of Notice of AGM to all members has been completed on Sept. 5th 2022. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL). Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process of remote e-Voting, joining the AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM by the members, has been provided in the Notice of the AGM. All the Members are informed that: 1. The businesses as set forth in the Notice of the 29th AGM will be transacted through

- voting by electronic means in the form of e-Voting 2. The remote e-Voting shall commence on Tuesday, Sept. 27th 2022 (10:00 a.m. IST and ends on Thursday, Sept. 29th 2022 (05:00 p. m. IST). The remote e-Voting facility shall be disabled by LIIPL thereafter and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- 3. Any person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date i.e. Friday, Sept. 23rd 2022, only shall be entitled to vote through remote e-Voting
- Any person who becomes member of the Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. 5. The Annual Report along with Notice of the AGM can be downloaded from the
- Company's website at www.valiantcom.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and LIIPL website at https://instavote.linkintime.co.in.

Members who need assistance before or during the AGM, for any grievances connected with the facility for e-Voting, they can address them to instameet@linkintime.co.in or call on +91 (022) 4918 6175. This Notice is in continuation of erstwhile Notice dated August 29, 2022 published on August 30, 2022.

Manish Kumar

For Valiant Communications Limited

Place: New Delhi Company Secretary

Date: September 05, 2022 ICSI Membership No. A16483

PSP Projects Limited PSP CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com

Regd. Office: "PSP House", Opp. Celesta Courtvard. Opp. lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat- 380058 Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 Email: grievance@pspprojects.com

Notice of the 14th Annual General Meeting of the company and information on E-voting

Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("AGM") of PSF Projects Limited ("the Company"), is scheduled to be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:00 a.m. IST in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Notice of the 14" AGM and the Integrated Report for the Financial Year 2021-22, has been sent to the members whose email addresses

are registered/updated with their Depository Participants. The Notice and Integrated Report are available on the Company's website a www.pspprojects.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

Record Date for the purpose of AGM and Dividend entitlement: The Company has fixed Tuesday, September 20, 2022 as 'Record Date' for AGN

and determining entitlement of shareholders for receiving Dividend (@50% i.e. Rs. 5/- per Equity Share having face value of Rs. 10/- each) for the financial year ended March 31, 2022, if approved by the members at the AGM. The dividend will be paid on or after September 27, 2022 to the shareholders whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the record date. Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("evoting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of e-voting including e-vot during AGM and joining of AGM, has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein below) or Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same has also been provided in the Notice of The remote e-voting period commences on Saturday, September 24, 2022 at

9:00 a.m. IST and ends on Monday, September 26, 2022 at 5:00 p.m. IST. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. Members attending the AGM and who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members or Register

of Beneficial Owners as on the Cut-off Date, i.e. Tuesday, September 20, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during AGM. Manner of registering/updating e-mail addresses:

Members holding shares of the company and have not registered/updated their

Place: Ahmedabad

Date: September 05, 2022

e-mail address with the Depository Participants are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participants. In case of any queries pertaining to e-voting or technical issue, members may

refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available under the help section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Sarita Mote, Assistant Manager at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at evoting@nsdl.co.in. Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through NSDL e-

voting system, at www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the notice. By order of the Board of Directors,

> Kenan Patel Company Secretary & Compliance Officer Membership no.: ACS: 39981

PSP Projects Limited

Sd/-

New Delhi



एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड ANDREW YULE & COMPANY LIMITED (A Government of India Enterprise) CIN No.: L63090WB1919GOI003229

Registered Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani Kolkata-700 001, Ph.: 033 2242-8210 / 8550; Fax No.: 033 2242-9770 E-mail: com.sec@andrewyule.com; Website: www.andrewyule.com

COMPLETION OF DESPATCH OF NOTICE OF 74TH ANNUAL **GENERAL MEETING AND ANNUAL REPORT FOR FY 2021-22**

Members are hereby informed that despatch of the Notice convening the 74th Annual General Meeting of the Company on Thursday, 29th September, 2022 at 3.30 p.m. and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2022 to the members of the Company has been completed on 5th September, 2022, in conformity with the regulatory requirements. Pursuant to the MCA and SEBI Circulars, the Notice calling the 74th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent only in electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on 19th August, 2022. The AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2021-22 is available on the Company's website at

http://www.andrewyule.com/annual_report.php and on the website of BSE Ltd.

(www.bseindia.com). The notice is additionally available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. In compliance with provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder, duly amended from time to time; SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Resolutions for consideration at the 74th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of National Securities Depository Limited (NSDL) have been engaged by the Company. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members

AGM Notice as for information purposes only. Remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Monday, 26th September, 2022 and will end at 5.00 p.m. on Wednesday, 28th September, 2022, when remote e-voting will be blocked by NSDL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes

of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the

Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 22nd September, 2022 will

be entitled to cast their votes by remote e-voting or e-voting during the AGM.

Those who are not members on the cut-off date should accordingly treat the

Persons who become Members of the Company after sending the AGM Notice but on or before the cut-off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Company at com.sec@andrewyule.com requesting for user ID and password for remote e-voting or e-voting during the AGM.

Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided

in the Notice of the 74th AGM. The Company has appointed Shri Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4848), Proprietor of M/s. A. K. Labh & Co. Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting at the 74th AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available under the 'Downloads' section of NSDL's e-voting website or may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL

Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel,

Mumbai-400013 at toll free no. 1800 1020 990/1800 22 44 30 or at e-mail ID:

evoting@nsdl.co.in.

Place: Kolkata

Date: 6th September, 2022

For Andrew Yule & Company Limited

Sd/-(Sucharita Das) Company Secretary

RUCHIRA PAPERS LIMITED CIN: L21012HP1980PLC004336

Registered Office & Works: Tirlokpur Road, Kala Amb, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh - 173030, Tel: 91-8053800897 Email: cs@ruchirapapers.com · www.ruchirapapers.com Notice of 42ndAnnual General Meeting and

NOTICE is hereby given that the 42ndAnnual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 29th September 2022 at 12.00 P.M.through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5thMay 2020, 13th January 2021and 5th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12thMay2020, 15th January 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the AGM Notice dated 30th August 2022. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM and the weblink to attend the AGM is ttps://instameet.linkintime.co.in. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the

E-Voting Information

n accordance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 comprising Financial Statements. Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on 26th August 2022. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.ruchirapapers.com and also at the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.cam and www. nseindia.com, respectively, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of Link Intime India

Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in n compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 42ndAGM and the business may be transacted through remote e-voting services provided by LIIPL. Remote e-voting is optional. The facility of e-voting shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM. The facility of remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by LIIPL.

The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote evoting or e-voting at the AGM is Thursday, 22ndSeptember 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cutoff date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM or e-voting at the AGM. The remote e-voting period begins on Monday, 26th September 2022 (9.00 a.m) and ends on Wednesday, 28thSeptember 2022 (5.00

p.m). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, is provided in the

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 22ndSeptember 2022, may follow the same instructions for remote e-voting, e-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User 1D and Password is also provided in the Notice of the AGM.

The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations that the Board has fixed Saturday, 10th day of September 2022 as record date for the purpose of determining the members entitled to receive final dividend for the financial year 2021-22. Provided, if the dividend as recommended by the Board of Directors is approved at the AGM, payment of such dividend will be made on or after 12th October 2022.

Manner of registering/updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated

their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at cs@ruchirapapers.com -a-signed request letter mentioning their name, folio no. and address;

(ii) self-attested copy of the PAN Card and iii) self-attested copy of any document (e.g., Aadhar Card, Driving License, Election

Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. (b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are

requested to register/update their email addresses with their Depositary

After due verification, the Company will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered email addresses.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000. In case shareholders/ members have any queries regarding Video Conferencing login/ evoting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

Date: 05.09.2022 Place: Kala Amb

(Company Secretary& Compliance Officer)

For Ruchira Papers Limited

Igbal Singh

financialexp.epap.in

Place: Hyderabad

Date: 05.09.2022

तिथिः 6.9.2022

स्थानः नई दिल्ली

दिद्वारा सूचित किया जाता है कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनस प्राइवें लिमिटेड की 7वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे एलजीएफ–1, एरिया टॉवर, दिल्ली हॉस्पिटैलिटी, एरोसिटी जिला, नई दिल्ली–110057 स्थित कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में कंपनी अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों के अनुपालन में भौतिक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमे (ओएवीएम) के माध्यम से संक्षिप्त सूचना पर आयोजित की जाएगी।

> कृते एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हस्ता /

स्थान : नई दिल्ली, दिनांक : 05 सितंबर, 2022

काजल ऐजाज इल्मी (एमडी और सीईओ) (डीआईएन: 01390771)

प्रीमियम मर्चैटस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, 5वीं मंजिल, जसोला जिला केंद्र, जसोला, नई दिल्ली-110025 सीआईएनः L51909DL1985PLC021077, दूरभाषः +91 11 61119658 ईमेल आईडी: premiummerchants123@gmail.com, वेबसाइटः www.pmltd.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को अपराह 2.00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, 5वीं मंजिल, जसोला जिला केंद्र, जसोला, नई दिल्ली-110025 में वार्षिक आम बैठक की सचना में उल्लिखित व्यवसायों के लेन-देन के लिए आयोजित की

वार्षिक रिपोर्ट, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है, बशर्ते कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। कंपनी ने सोमवार 5 सितंबर, 2022 को ई–मेल और अन्य अनुमत मोड के

माध्यम से सभी प्रेषण पूरा कर लिया है। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस के अलावा ई–वोटिंग प्रक्रिया एवं तरीका का विनिर्देश, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची कंपनी की वेबसाइट www.pmltd.in पर उपलब्ध है और इसे कंपनी के पंजीकत कार्यालय

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्य को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान इलेक्टॉनिक माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से व्यापार का लेन–देन किया जा सकता है की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव करती है। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार 27 सितंबर, 2022 को पूर्वाह 9.00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार 29 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी को भी ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने श्री सुरिंदर किशोर कपाही, प्रोपराइटर कपाही एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को कानून के अनुसार और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है सदस्यों के वोटिंग अधिकार 23 सितंबर 2022 की कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार जो सदस्य भौतिक या डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 के अनुसार ऐसे शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त

एजीएम में, बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और "कट—ऑफ तिथि" अर्थात 23 सितंबर, 2022 के अनुसार जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले इलेक्टॉनिक माध्यम से अपना वोट डाला है, वे अभी भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे पुनः वोट देने के हकदार नहीं होंगे। एजीएम की सूचना में, अन्य बातों के साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट www.pmltd.ir

और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभागों में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर :1800—222—990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या info@masserv.com पर मेल लिखें। एतदद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 10 और सेबी (सचीबद्धता

दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बुक, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारके का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से शनिवार 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। कते प्रीमियम मर्चैट लिमिटेड

> बलबीर सिंह डीआईएन :00027438

स्थान : नई दिल्ली अलीरॉक्स एब्रेसिट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 05.09.2022

कॉर्पोरेट कार्यालयः 6जी (छठी मंजिल) और 7ए (7वीं मंजिल), हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 ई-मेल : scml@dalmiadelhi.com, snccil@dalmiarf.com; वेबसाइट : www.alirox.com दुरभाष : 011- 45685625, 011-41070069 सीआईएन : L74899DL1944PLC000759

कम्पनी की 78वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.30 बजे पूर्वाह्न को 4. सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110 001 पर आयोजित की जायेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की इक्विटी शेयरों के शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक

2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक साधारण सभा में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार के प्रयोग की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सदस्य सभा के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत संचार जिसमें अन्य विषयों के साथ सचना की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली 2014, यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम

वित्त वर्ष 2021-22 के साथ यूजर आईडी तथा पास्वर्ड शामिल हैं, स्वीकृत पद्धति में सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है तथा निर्देशों के साथ सभा की सुचना कंपनी की वेबसाईट www.alirox.com तथा वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे सायं (भा.मा.स.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 को सदस्यों/ लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर

में शामिल होंगे वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सभा में मतदान करने की सविधा प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति सभा की सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23

सितम्बर, 2022 को शेयर धारित करते हों, वे shyam.kumar@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर अथवा ०४०-67162222 से संपर्क कर युजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर

से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। सभा में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य

जिन्होंने रिमोट ई- वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित किसी पूछताछ/ समस्या के लिए सदस्य/ लाभभोगी स्वामी निम्न

पिते पर संपर्क करें: श्री एन श्याम कुमार, प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाछीबावली. फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,, हैदराबाद- 500032, फोन नं.: 040-67162222, ई-मेलः shyam.kumar@kfintech. com

अलीरॉक्स एबेसिट्स लिमिटेड के लिए स्थानः नई दिल्ली तिथि: 5 सितम्बर, 2022

(सोनल पोपली)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं.: ए४४१६७

स्वाम साफ्टवेयर लिमिटेड

(CIN: L65100DL1992PLC047327) पंजी. कार्या.: 224, जी/एफ, स्ट्यम सेवा, को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. झिलमिल, दिल्ली-110032

स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं (तीसवीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में एस-524, विकार मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सुचना जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2022 को पंजी. में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रिजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 रे शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक-2 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

| ● रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

(9.00 बजे पुर्वा.)

स्थानः दिल्ली

www.readwhere.com

- रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 (5.00
- मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 16
- एजीएम में सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए मत पत्र द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे
- एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.svamsoftwareltd.in एवं सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

स्वाम साफ्टवेयर लिमिटेड के लिए

तिथि: 06.09.2022 मनीशा अगरवाल प्रबंध निदेशक

SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LTD. Regd. Off: 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L65999DL1985PLC019987, Website: www.supraindustrialresources.in E-mail: supra1985@gmail.com / supraexchange.com@gmail.com NOTICE TO SHAREHOLDES

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2021 at 4:30 p.m. As per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, the forthcoming AGM will thus be held physically. Hence, Members can attend and participate in the ensuring AGM through VC/ OAVM. The deemed venue for the 37th AGM shall be 1212 Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 to transact the business contained in the Notice dated 05-09-2022 sent to all the members individually at their registered email address and also uploaded on the Company's website www.supraindustrialresources.in.

Further notice is given that e-voting and facility through VC/OAVM has been provided for transacting the business at the aforesaid AGM to the shareholders. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cutoff date of 23-09-2022 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 37th AGM may be transacted by electronic voting. Working through electronic means shall commence on 27-09-2022 (9:00am IST) and shall end on 29-09-2022 (5.00 pm IST) (b) members are requested to refer the instruction on e-voting, forming part of AGM notice regarding the process and manner for voting by electronic means. Members who have already cast their votes by e-voting may attend the AGM but shall not

For Supra Industrial Resources Ltd

(Rajat Agarwal) Place: New Delhi Director Date: 05.09.2022 DIN: 00266205

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेत् समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार

(क्षेत्रीय निदेशक)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

मैसर्स वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड जिसका कि पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 2. सेक्टर-32, गुडगांव, हरियाणा — 122001 में है, के मामले में

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी शनिवार, 20 अगस्त, 2022 को आयोजित अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "छत्तीसगढ राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेत् कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी

कृते वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड हस्ता./-

राजीव जैन (निदेशक) डीआईएनः 00053627

प्लॉट नं. २, सेक्टर-32,ग्डगांव, हरियाणा— 122001

तिथि— 5 सितम्बर, 2022 स्थान– गुड़गांव

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ए-23, मंदाकिनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके- II, नई दिल्ली-110019 कॉर्पोरेट कार्यालयः ट्रिनिटी टॉवर, बी-2, सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 संपर्क-0120-4712847

> वेबसाइट : www.trinitygroup.ind.in ई-मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in

लिमिटेड की चौंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (34वीं एजीएम) केवल ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा बुधवार 28 सितंबर 2022 को पूर्वीह 11.30 बजे आयोजित की जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020,परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन में एजीएम केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इलेक्टॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 सहित एजीएम की सुचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते कम्पनी या सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं और इसें कम्पनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उनके पास एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, वे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन तथा क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन्ड प्रति कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेज दें तािक वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के

रिमोट ई—वोटिंग अवधि 25 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी और 27 सितम्बर, 2022 को 5. से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतू सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि बुधवार, 21 सितंबर, 2022 है। कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने व उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने के लिए investor@beetalfinancial.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त क सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई–वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचन अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को सचित करें जिनके द्वारा उनके डीमैट खाते अनरक्षित किये जा रहे हैं। कम्पनी अथवा इसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे किसी निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी भागीदारों के पास ही परामर्शित होने हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉॉिंपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसूखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062 के पास भेजें। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 05 सितम्बर, 2022

पीयूष कुमार श्रीवास्तव कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सीआईएन : L74899DL1993PLC056652

पंजीकृत कार्यालय: 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 दुरभाष : 91-11-25928415, 25928416 फैक्स : +91-11-25434300 ई-मेल: investors@valiantcom.com, वेब: www.valiantcom.com

वार्षिक आम बैठक सूचना

प्राधिकरणों द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 9.30 बजे भा.मा.स. पूर्वा. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो साधने रवीएम) के माध्यम से आयोजित जाएगी। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ एजीए के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तव बन्द रहेंगी। इन लागू होने वाले परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना ईमेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई—मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटर डीपी के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों के पास एजीएम की सूचना ई–मेल द्वारा भेजने का कार्य ! सितम्बर, 2022 को समाप्त कर लिया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी कम्पनी एजीएम में प्रस्तावित होने वाले समस्त संकल्पों के लेन-देन पर लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रावधानित सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के उपलब्ध करायी जायेगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित / भाग ले सकते हैं किन्तू वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी गयी है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 29वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देने ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (10.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 (05.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार,, 23 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों वं रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान का पात्र होगा। कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ

तिथि तक शेयर धारण करता है वह enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.valiantcom.com तथा

https://instavote.linkintime.co.in. से डाउनलोड की जा सकती है। जेन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या इसके दौरान किसी सहायता या ई–वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो वे instameet@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं अथवा 91 (022) 49186175 पर कॉल कर सकते हैं। यह सूचना 30 अगस्त, 2022 को प्रकाशित पूर्व की सूचना दिनांक

29 अगस्त, 2022 की निरन्तरता में है। कृते वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 05 सितम्बर, 2022

900	- 61-	(भारत सरकार का उपक्रम) कॉर भवन, सी-3 मधुरा रोड.
कॉनकॉर शयन, सी-3 मथुरा येंड. अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110 076 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) निमिलिजत आरबीएसओ रेखंकन आरबीएसओ रेखंकन से करपूळी-15011-एस-23 अल्ट. 2 अथवा नवीनतम के मद से 1की एवं 2 (पोस्ट विशेष परिचालों के बंगीर) रेलू 6480 नग सीआएएफ एकएटी संख्यन की आपूर्त हेतु आरबीएसओ अनुमंदित सोतों से वे वेकेट खुली निवेदा प्रनाली के माध्यम से ऑनलाइन खुली ई-बॉलियां आमंत्रित की जाती है। 1 बेली संवर्ष CONT/BLCS/CRF/660178/R-W2022 2 निवेदा मात्रा 6480 नग रे 1000,000/- (इस लाख मात्र) 4 वस्ताकेन का मूच्य (अप्रतिदेय) 5 निवेदा प्रक्रिया युन्क (अप्रतिदेय) 6 बेली-पूर्व बेठक 1 वेली-पूर्व बेठक 1 विशेष तीसरा तल, ओखला इंडरिट्रयल एक्टेट, एनएसआईसी, अंखला मेट्रे के माध्यम से। 1 विशेष तीसरा तल, ओखला एक्टे एनएसआईसी, अंखला मेट्रे के माध्यम से। 7 निवेदा की बिकी की अवधि (अनलाइन) 8 बेली जुनन की लिखि एवं समय 28,09,2022 को 1500 बजे से 28,09,2022 को 1500 बजे तक 8 बेली खुनने की लिखि एवं समय 28,09,2022 को 1600 बजे 10 खुनने का स्थान 10 खुनने का स्थान 11 पत्राचार का पता 11 पत्राचार का पता कितीय पात्राचा मनदेह, समान प्रकृती के कार्य के संखंब में अनुकय, आदि के लिए, कुमया केलसइट स्वरूप्तास्था कारका के सामने, नई दिल्ली— 110020, है-मेल अस्प्रांकिक में अनुकय, आदि के लिए, कुमया केलसइट स्वरूप्तालणाटCIL, www.concorindia.co.in एपं www.eprocure.gowin पर उपस्थ स्वरूप्तालण कर से विल्ला से उपस्था के सामने हिन्स केलाइट		
_		6480 नग
		₹ 10,00,000 / - (दस लाख मात्र)
-	and the second s	₹ 1,000/- कॉनकॉर को ऑनलाइन मुगतान गेटवे के माध्यम से।
5	निविदा प्रक्रिया युक्क (अप्रतिदेध)	
6	बोली—पूर्व बैठक	बिरिकंग् तीसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, एनएसआईसी ओखला मेट्टो स्टेशन
7	निविदा की बिकी की अवधि (ऑनलाइन)	06.09.2022 को 15:00 बजे से 28.09.2022 को 15:00 बजे तक
8	वोली जमा करने की लिखि एवं समय	
9	बोली खुलने की तिथि एवं समय	29.09.2022 को 11:00 बजे
10	खुलने का स्थान	एनएसआईसी, एमडीवीपी बिल्डिंग, तीसरा तल, ऑखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
11	पञाचार का पता	एनएसआईसी, एमडीबीपी बिल्डिंग, तीसरा तल, ओखला इंडरिट्रयल एस्टेट, एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन के सामने, नई दिल्ली— 110020,
WY Fif WY	vw.tenderwizard.com/CCIL, ww वेदा सूचना देखे। इसके अलाया,	w.concorindia.co.in एवं www.eprocure.gow.in पर उपलब्ध विस्तृत इस निविदा हेतु मुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि केई हो, केवल वेबसाइट w.concorindia.co.in और www.eprocure.gow.in पर प्रकाशित किया

पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशुल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 कब्जा सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

विक अवोहस्ताक्षरी ने एक्सिस बँक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण ननिर्माण तथा प्रतिभृतिष्ठित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति ष्ठित (प्रवर्तन / नियमावर्ली 2002 वे नेयम ३ के साथ संपर्वित धारा १३(१२) के तहत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित कर्जदार / गारन्ट हो नीचे दिये विवरण के अनुसार मौंग सुचनाएं जारी की थी जिनमें उनको सुचना में वर्णित बकाया राशि का भगत उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मींग की थी। कर्जदार उक्त राशि चकाने में असफर रहें है एतदवारा कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारणको सूचना दी है कि अधोहस्ताक्षी ने उक्त नियमावली व नियम 8 के साथ रापठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपनियम 4 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग रुरते हुये यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणी को विशिष्टत और सर्वेसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति हे साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लि. के प्रभार के अध्यवीन होगा । कर्जदार का ध्यान प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ा-तु उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

6118 वर्ग फीट, धैना राम पुत्र रेवत राम

आवासिय संपदित, खसरा नं.

तिथि

2802 / 2294, गांच काकू टेक, नी खा क्षेत्रफल | **Rs. 7,99,278.3**9

01/09/2022 02-06-2022

व राशि (क.)

+ Interest

कर्जदार / सह-कर्जदार

के नाम

ना राम घंटियाला पुत्र रेवत राम

र्वकर लाल (सह आवेदक / बंधककरती)

(आवेदक / बंधककरता)

and costs बी / सी घंटियाला आर / ओ, वॉर्ड नं.05 काक् नौ सा बीकाने र राज. 334803 वार्ड में 05, बस स्टेन्ड के पास गांव 01/09/2022 02-06-2022 केशन लाल पुत्र मेघराज मलिसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूस राजस्थान Rs.14,06,340/-(आवेदक / बंधककत्त्ती) रियत आवासिय संपत्ति किशन लाल के नाम जिसका Interest and costs क्षेत्रफल 201.04 वर्ग गज है। हिंदू सिंह मेहरात पुत्र पूरन सिंह पट्टा ने 1086 बुक ने 22 ग्राम पंचायत 01/09/2022 02-06-2022 मेहरात (आवेदक / बंधककरता) समिति, रायपुर, जिला पाली स्थित आवासिय संपत्ति Rs. 12,52,563/-अमारा पुत्र पुरा जीलिङ्डू सिंह पुत्र पूरन सिंह मेहरात के नाम जिसका Interestand costs (सह-आवेदक / बंधककत्त्ती) क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट है। मनोहर सिंह पुत्र लंडबू सिंह पट्टा नं 1085, क्षेत्रफल 2400 (आवेदक / बंधककरता) प्रेमी देवी वर्ग फीट, खसरा नं. 581 केसरपुरा तहसील रायपुरा Rs. 14,07,741/-+ सि ह जिला पाली में स्थित आवासिय संपत्ति ग्रेमी देवी के Interest and costs त्नी लडडू (आवेदक / बंधककर्ता) आबिद अली पुत्र मन्नू खान खसरा नं 1674. बाबा जी की छावनी 01/09/2022 02-06-2022 (आवेदक / बंधककत्ता) मन्नू खान में स्थित आवासिय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 127.97 Rs. 22,64,515/-पुत्र महमूद खान (सह-आवेदक / वर्ग गज है , आविद अली पुत्र मन्नू खान के नाम है।

बंधककरता) दीम हैसन पुत्र रोशन खान पट्टा ने 76 गांव कासली दा घोड जिला 01/09/2022 13-06-2022 (आवेदक / बंधककत्ती) रोशन अली सीकर में स्थित जेपी आवासिय प्लाट संपत्ति जिसका Rs. 16,61,216.61 + Interest पुत्र सवाई खान (सह-आवेदक / क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है , रोशन अली के नाम है। and costs बंधककत्त्ती) प्रकाश चन्द जागीर पुत्र मिर्चू राम पट्टा नं 14 गांव दीशनी लक्ष्ममणगढ, 01/09/2022 13-06-2022 (आवेदक / बंधककत्ती) सीकर राजस्थान में स्थित आवासिय संपत्ति जिसका Rs. 10,27,177.05 क्षेत्रफल 231.88 वर्ग गज है. प्रकाश मिर्च के नाम है। + Interest and costs 02-06-2022 हैलास पुत्र भंवर लाल (आवेदक / Rs. 7,71,602.06 बंधककरता) शंन्ति पत्नी मंदर लाल (सह–आवेदक / बंधककरताी) and costs पटटा नं ३२४५. ग्राम पंचायत वरसिंहपरा 02/09/2022 माष बाजिया पत्र शंकर लाल बाजिया। हसील खंडेला, जिला सीकर में न्यायसंगत बधंक पर Rs.12,50,428/-आवेदक / बंधककत्त्ती) सुभाष कुमार स्थित भनि के सभी भाग जिसका क्षेत्रफल 227.47 वर्ग त्र शंकर लाल बाजिया **(सह**– आवेदक / बंधककरती) मनी देवी परनी गज है , मनी देवी पत्नी शंकर लाल के नाम है।

पर्यक्त कर्जदार / सह कर्जदार / गारंटर को इस राज्ञि को चकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता न्या गिरवी हुई संपति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समादित पर बेची जाएगी. इस प्रावध हे तहत सुरक्षा व्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 कर्जदार का ध्यान सुरक्षित परिसम्पतियों एवज में उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के उप खण्ड (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया गया है । प्राधिकत अधिकारी (एक्सिस बैंक लि.)

प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत] पास्ता लाइफस्टाईल सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ 3. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकत है 4 कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक U74999DL2015PTC278682 का सीमित दायित्व पहचान संख्या 5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय सी-5, एलजीएफ, लाजपत नगर-III, दिल्ली, नई दिल्ली तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का डीएल 110024 6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या पताः 40/55, प्रथम तल, सीआर पार्क, नई दिल्ली-110017 सम्पर्क नं.: 9971761073 ईमेल आईडी: irp@ppglegal.com पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435

नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 1 अक्टूबर, 2022 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 事計 司0. 011-40045955

वेबसाइटः www.kotiaenterprises.com, ईमेसः compliance@kotiaenterprises.com रतददारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को प्रातः

आयोजन की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा। 42वीं एजीएम की सूचना और उपस्थिति पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म एवं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ रिमोट ई-वोटिंग के दिशानिर्देशों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई जिनके ई-मेल आईडी पत्राचार प्रयोजन के लिए कंपनी / हिमॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं और कोई भी सदस्य इनकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध कर सकता है। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोढ़ में भेज दी गई हैं। एजीएम के नोटिस का प्रेमण

05 सितम्बर, 2022 को पूरा हो गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी एजीएम में विचाराधीन सभी प्रस्तावित संकल्पों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर अपना वोट देने की

एजीएम की सूबना में निर्धारित साधारण और विशेष पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः 29 सितम्बर, 2022 को सायं 5:.00 बजे। 29 सितम्बर, 2022 को साथं 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या एजीएम के माध्यम से वोट देने की योग्यता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर एक व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहीत करता है और सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2022 को शेयरधारण करता है, वह evoling@nsd.co.in या (आरटीए),

एजीएम में बैलेट पेपर/पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वह सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और बैठक में उपस्थित है, केवल वहीं बैठक

वह सदस्य जिसने एजीएम से पूर्व अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकता हैं लेकिन उसे दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 शितम्बर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर या विधाजिटरीज द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वामियों के रंजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा का लाम उठाने का हकदार होगा। 10. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kotiaenterprises.com और एनएसढीएल की वेबसाइट

https://www.evoling.nsdl.com पर प्रदर्शित की गई है। किसी भी पूछताछ के लिए www.evoing.rsdi.com के ढाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्वों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएनयू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं या टोल क्री न

1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं। एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुरितका 24 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022

तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेशानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी, कुसुमखेड़ा, केनरा बैंक Canara Bank 📣 बालाजी बैंकेट हॉल के पास, चीनपुर, (चल/अचल सम्पत्ति हेतु)

०५ सितम्बर, २०२२

हल्ह्यांनी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड Email: crrohld@canarabank.com जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम २००२, (२००२ का संख्याक ५४) की धारा १३(१२) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ३ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग पत्र निम्न खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर तथा सम्पत्ति के मालिकों से भूगतान की मांग करते हुए संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भूगतान करने के लिए निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के निमय 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को विशेषतया तथा जन सामान्य को सूचित किया

की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया गया है। शाखा का नाम ऋणी एवं मांग नोटिस | मांग सुचना के अनुसार बंधक चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण की तिथि बकाया धनराशि जमानतियों का नाम व पता 06.01.2022 ₹ 17,26,332.41 बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति (भूमि व भवन) के सभी भाग 1. शाखा : हल्ह्वानी - । एवं हिस्से जो कि खाता नं. 393, खसरा नं. 214 ख मिन, 1) श्री मोहम्मद दीन (कर्जदार/बंधककर्ता) पुत्र श्री ग्राम गौजाजाली उत्तर, परगना भाबर छह खाता, तहसील छब्बीस हजार तीन कमरूददीन, पता -01 : वार्ड नं. 16, लाहौरिया 01.09.2022 सौ बत्तीस एवं पैसे हिन्द्वानी, जिला नैनीताल में स्थित है। क्षेत्रफल 37.17 वर्ग मौहल्ला आंशिक, काशीपुर, तहसील काशीपुर, मीटर। सम्पत्ति श्री मौहम्मद दीन पुत्र कमरूददीन के नाम पर डक्तालिस केवल) जिला उधमसिंह नगर-244713 पता - 02 : ग्राम गौजाजाली दर्ज है। सीमाएँ - उत्तर में 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण + प्रभावी व्याज उत्तर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139 हनीफ का घर, पूरव में 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में + अन्य खर्चे

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्ते व संपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कॉमर्शियल बैंक)** के नाम से ज्ञात जो कि आगे AUSFB सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ''**जैसे है जहां है'' एवं जो भी है जैसा भी है** के आधार पर ई-नीलामी दारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शल्क की वसली हेत विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह सचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणा/ सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्त्ता का नाम	की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	की तिथि व समय	जमा कराने की तिथि व समय	इ-नालामा निवदा खोलने व जमा कराने का स्थान	संपत्ति विजिट विनांक
ऋण खाता सं.: L9001060718185234 जैन एन्टरप्राइसेज जरिए प्रोपराइटर अंकुर जैन (ऋणी), अंकुर जैन पुत्र सुशील कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती रीतु जैन पुत्री विनोद जैन (सह-ऋणी)	07 जनवरी 2022 ₹ 3272850/- रुपये बत्तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ पचास मात्र 07 जनवरी 2022 तक	23 जुलाई 2022	सम्पत्ति स्थित मकान नं. 09/2794, गली नं. 04, कैलाश नगर दिल्ली क्षेत्रफल 38.50 वर्ग गज	₹ 3545000/- रुपये पॅतीस लाख पॅतालीस हजार	ह 355000/- रुपये तीन लाख पचपन हजार मात्र	13 अक्टूबर 2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	11 अक्टूबर 2022 तक या इससे पहले समय प्रात:10.00 से सार्य 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बंक लिमिटंड, शाखा कार्यालय:- 801 से 804, आठवीं मंजिल, रुट्स टॉवर, जिला सेन्टर लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092	भान् प्रताप सिंह 9358002663 ई-मेल आई.डी. auctions@ aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 07 अक्टूबर 2022
ऋण खाता सं.: L9001060717402822 अनील शर्मा पुत्र राम नारायण शर्मा (ऋणी), श्रीमती गीता शर्मा पत्नी अनील शर्मा (सह-ऋणी व बंधककर्ता)	23 अप्रैल 2021 ₹ 2647550/- रुपये छळ्वीस लाख सँतालीस हजार पांच सौ पचास मात्र 23 अप्रैल 2021 तक	11 जनवरी 2022	सम्पत्ति बियरिंग नं. 19-ए दुसरी मंजिल पोर्शन विना छत / टैरेस अधिकार के केएच नं. 340/145 आबादी शाकारपुर गांव शाकारपुर खास इलाका शाहदरा नई दिल्ली क्षेत्रफल 60 वर्ग गज	₹ 1444000/- रुपये चौदह लाख चौवालीस हजार	र 145000/- रुपये एक लाख पँतालीस हजार मात्र	13 अक्टूबर 2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	11 अक्टूबर 2022 तक या इससे पहले समय प्रात:10.00 से सार्य 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय:- 801 से 804, आठवीं मंजिल, रुट्स टॉबर, जिला सेन्टर लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092	भान् प्रताप सिंह 9358002663 ई-मेल आई.डी. auctions@ aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 07 अक्टूबर 2022
ऋण खाता सं.: L9001060120131409 राज मेडिकोज (ऋणी), सुनीता ग्रोवर पत्नी /पुत्री हंसराज (सह-ऋणी), सुमीत कुमार पुत्र हरिश चन्द कुमार (सह-ऋणी), हेमा पत्नी /पुत्री महेन्द्र (सह-ऋणी)	14 फरवरी 2022 ₹ 2907965/- रुपये उनतीस लाख सात हजार नो सी पैंसठ मात्र 11 फरवरी 2022 तक	28 जुलाई 2022	सम्पत्ति स्थित एच नं. 1-एफ/106, वाका मौजा न्यू टाउन शिप, निट फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 41 वर्ग गज	र 2785000/- रुपये सताइस लाख पिच्यासी हजार	र 280000/- रुपये दो लाख अस्सी हजार	13 अक्टूबर 2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे से साय 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	11 अक्टूबर 2022 तक या इससे पहले समय प्रात:10.00 से सार्य 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटंड, शाखा कार्यालय:- पी नं. 28, तीसरी मॉजिल, पोकेट ई 2, सेक्टर 7 रोहिणी, नई दिल्ली 110085	भानू प्रताप सिंह 9358002663 ई-मेल आई.डी. auctions@ aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 07 अक्टूबर 2022

(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई—निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्युशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, जो आरटीजीएस/एनईएफटी/हीही के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेह MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालु खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड : AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auctions@aubank.in पर रदद किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं. भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनु रोध किया जाता है कि ई-निलामी की बिक्री

नोट:- यह सचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में

स्थानः दिल्ली

ऋण खाता संख्या/ऋणी/

13(2) नोटिस

की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाईट https://sarfaesl.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री मानू प्रताप सिंह से संपर्क करें: 9358002663 और ई—मेल auctions@aubank.in

नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी। दिनांकः ०५ सितम्बर २०२२

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है पास्ता लाइफ स्टाईल सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड ने 2 सितम्बर, 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है। एतद्द्वारा पास्ता लाइफस्टाईल सॉल्यशन्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम

(पवन कुमार अग्रवाल

11:00 बजे 905 न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम

सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी अधिनियम. 2013 के प्रावचानों और यथा संशोधित कथित नियमों के नियम 20 के अनसरण में विवरण नीचे

डलेक्टॉनिक पद्धति से वेटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 27 सितम्बर, 2022 को प्रातः 08:00 बजे।

ई-मेलः admin@skylinena.com पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी

कब्जा सुचना

जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सम्बन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13

ताहिर का घर। स्थान : क्षेत्रीय कार्यालय, हल्ह्वानी अधिकृत अधिकारी दिनांक : 06.09.2022

फार्म नं. आईएनसी-26 किम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

याचिकाकर्ता

34वीं वार्षिक आम बैठक की सचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेत टिनिटी लीग इंडिया

www.bseindia.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

00 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटिंग हेत ई–वोटिंग मॉड्यल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 27 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

एतद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों नियमों एवं विधिव

बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट

मनीष कुमार कम्पनी सचिव आईसीएसआई सदस्यता सं. A16483